



सत्यमेव जयते



# राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी National Testing Agency

Excellence in Assessment

(उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन)

(An Autonomous Organization under the Department of Higher Education, Ministry of Education, Government of India)

## सार्वजनिक सूचना

24 मई 2022

**विषय:** राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (यू जी) -2022- के ऑनलाइन आवेदन पत्र के विवरणों में सुधार संबंधी . . .

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने, नीट (यू जी) - 2022 के ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपने विवरणों को संपादित/संशोधित करने की अनुमति देने के संदर्भ में, अभ्यर्थियों से प्राप्त हुए कई अभ्यावेदनों को ध्यान में रखकर नीट (UG) - 2022 के ऑनलाइन आवेदन पत्र के विवरणों को संशोधित करने हेतु एक अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया है। सूचना-संदर्भित विवरण निम्नांकित है:

परीक्षा	विवरण में सुधार के लिए अवधि	सुधार के विशिष्ट क्षेत्रों
नीट (यू जी) - 2022	24 मई से 27 मई 2022 (रात्रि 09:00 बजे तक)	अनुलग्नक-1 के अनुसार

उक्त परीक्षा के लिए पंजीकृत सभी अभ्यर्थियों को सुझावित है कि वे वेबसाइट देखें और अपने आवेदन पत्र के विवरणों को सत्यापित करते हुए, यदि आवश्यक हो तो, संबंधित विवरणों में सुधार करें।

अभ्यर्थियों को, सुधार करने की यह अनुमति, 27 मई 2022 (रात्रि 09:00 बजे तक) तक के लिए प्रदान की गई है। किसी भी परिस्थिति में, इसके बाद, NTA द्वारा विवरणों में सुधार के आवेदन, जो भी हो, पर विचार नहीं किया जाएगा। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा अतिरिक्त शुल्क (यथाप्रयोज्य) का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग/ UPI और PAYTM के माध्यम से किया जाएगा। किसी भी कठिनाई से बचाने के लिए अभ्यर्थियों को यह सुविधा चूंकि एक ही बार प्रदान की जा रही है, इसलिए अभ्यर्थियों को अत्यधिक सावधानी से सुधार करने का सुझाव दिया जाता है।

कृपया ध्यान दें कि अतिरिक्त शुल्क-भुगतान (यदि आवश्यक हुआ तो) के बाद ही अंतिम सुधार लागू होगा। लिंग, श्रेणी, या PwD में परिवर्तन के संदर्भ में, यदि शुल्क राशि प्रभावित होती है तो अभ्यर्थी से लागू अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। किया गया अतिरिक्त भुगतान वापस नहीं किया जाएगा, यदि कोई हो।

नीट (UG) - 2022 से संबंधित अधिक स्पष्टीकरण के लिए अभ्यर्थी 011-40759000 पर संपर्क कर सकते हैं या [neet@nta.ac.in](mailto:neet@nta.ac.in) पर ईमेल कर सकते हैं।

*Subanish*

(डॉ. साधना पाराशर)  
वरिष्ठ निदेशक (परीक्षा)



सम्पर्कसूत्र / Helpline Number: +91-11-40759000, e-mail: [neet@nta.nic.in](mailto:neet@nta.nic.in)

वेबसाइट / Website [www.nta.ac.in](http://www.nta.ac.in), <https://neet.nta.nic.in/>



1	अभ्यर्थियों को मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, स्थायी पता, पत्राचार का पता, एवं राष्ट्रीयता को छोड़कर सभी स्थानों (अपलोड की गई छवियों सहित) को बदलाव करने की अनुमति है।	
2	➤ आधार सत्यापित अभ्यर्थियों के लिए	
	सभी तीन स्थान सत्यापित यानी अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि और लिंग	इन तीन स्थानों में कोई सुधार नहीं
	सभी दो स्थान सत्यापित यानी अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि और लिंग	असत्यापित स्थान में सुधार की अनुमति है।
	<p><b>पिता और माता का नाम:</b> अभ्यर्थी या तो पिता का नाम या माता का नाम (कोई एक ही) बदल सकता है। यदि अभ्यर्थी इन दोनों स्थानों में से किसी एक को भी बदल रहा है, तो अभ्यर्थी को तस्वीर और हस्ताक्षर को बदलने की अनुमति नहीं है।</p> <p>यदि अभ्यर्थी अपनी तस्वीर और/या हस्ताक्षर बदल रहा है, तो उसे अपने पिता या माता का नाम बदलने की अनुमति नहीं है।</p>	
	<p><b>श्रेणी :</b> अभ्यर्थी या तो श्रेणी बदल सकता है या उसके बदले श्रेणी प्रमाणपत्र पुनः अपलोड कर सकता है, दोनों एक साथ नहीं।</p>	
	<p><b>उप-श्रेणी (PwD) :</b> अभ्यर्थी या तो उप-श्रेणी (PwD) को बदल सकते हैं या उसके बदले उप-श्रेणी प्रमाणपत्र को फिर से अपलोड कर सकता है लेकिन दोनों एक साथ नहीं।</p>	
3	➤ आधार असत्यापित अभ्यर्थियों के लिए	<p><b>अभ्यर्थी का नाम, पिता का और माता का नाम:</b> अभ्यर्थी या तो अपना नाम, पिता का नाम या माता का नाम (कोई एक ही) बदल सकता है। यदि अभ्यर्थी इन तीन स्थानों में से किसी एक को भी बदल रहा है, तो अभ्यर्थी को तस्वीर और हस्ताक्षर को बदलने की अनुमति नहीं है।</p> <p>यदि अभ्यर्थी अपनी तस्वीर और/या हस्ताक्षर बदल रहा है, तो उसे अपने पिता या माता का नाम बदलने की अनुमति नहीं है।</p> <p><b>श्रेणी :</b> अभ्यर्थी या तो श्रेणी बदल सकता है या उसके बदले श्रेणी प्रमाणपत्र पुनः अपलोड कर सकता है, दोनों एक साथ नहीं।</p> <p><b>उप-श्रेणी (PwD) :</b> अभ्यर्थी या तो उप-श्रेणी (PwD) को बदल सकते हैं या उसके बदले उप-श्रेणी प्रमाणपत्र को फिर से अपलोड कर सकता है लेकिन दोनों एक साथ नहीं।</p> <p>जन्म तिथि और लिंग - हाँ</p>